



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)

(सं0 पटना 774)

पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2013

सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-09/2005/829—श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के विरुद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में अपने परिक्षेत्राधीन पदस्थापित श्री काशीनाथ मिश्रा, शोध सहायक के द्वारा दायर याचिका सं0-693/03 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय की गलत व्याख्या कर तथा उसे आधार बनाकर सरकारी आदेशों / परिपत्रों का खुला उल्लंघन कर बिना सरकार का निदेश प्राप्त किये ही श्री मिश्र को सहायक शोध पदाधिकारी का वेतनमान 5500-9000 स्वीकृत कर उनके पदावनति अवधि के सारे वेतनादि का गलत भुगतान करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 484 दिनांक 19.3.10 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी को बार बार पत्र लिखने एवं स्मारित करने के बावजूद भी बचाव बयान या साक्ष्य समर्पित नहीं किये तथा विभागीय कार्यवाही में रुचि नहीं ले रहे हैं। अन्ततः जॉच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि विभाग आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर निर्णय हेतु स्तवंत्र है।

जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाते हुए विभागीय पत्रांक 1771 दिनांक 01.12.10 से निम्न दण्ड प्रस्ताव पर श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी:—

1. दस प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक।

2. श्री मिश्र, शोध सहायक को पदावनति के बावजूद भी शोध पदाधिकारी के वेतनमान में किये गये अधिकायी भुगतान की राशि की वसूली श्री प्रसाद के उपादान से एक मुश्त कर ली जायेगी।

श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मिश्र को सहायक शोध पदाधिकारी का वेतनमान 5500-9000 स्वीकृत कर उसका लाभ दिया गया जबकि विभाग द्वारा श्री मिश्र को 5000-8000 वेतनमान में शोध सहायक पद पर पदावनत कर दिया गया था परन्तु श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका 5088/06 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 29.6.10 में माननीय न्यायालय द्वारा श्री मिश्र के पदावनति एवं वेतन संबंधी आदेश निरस्त करने के फलस्वरूप विभाग द्वारा भी इसका अनुपालन किया जा चुका है। अतः समीक्षोपरान्त श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति

सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 774-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>